

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 11 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के पूंजीगत मद में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, घनसाली के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4003/सै.क./सै.वि.गृ./घनसाली/252, दिनांक 19 अगस्त, 2016 एवं सैनिक कल्याण विभाग के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-134/XVII-3/13-09(11)/2010, दिनांक 25.03.2013, शासनादेश संख्या-03/XVII-3/11-09(11)/2010, दिनांक 31.03.2014 व शासनादेश संख्या-701/XVII-5/2015-09(11)/2010, दिनांक 09.07.2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/2017, दिनांक 31.03.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-15 पूंजीगत मद के लेखाशीर्षक-4235 में लेखानुदान के माध्यम से एक पक्ष की प्राविधानित कुल धनराशि रू0 13.33 लाख (रू0 तेरह लाख तेत्तीस हजार मात्र) की सैनिक विश्राम गृह, घनसाली के निर्माण हेतु चर्तुथ किशत के रूप में वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की लेखानुदान के माध्यम से एक पक्ष की वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/2017, दिनांक 31.03.2017 एवं पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-134/XVII-3/13-09(11)/2010, दिनांक 25.03.2013, शासनादेश संख्या-03/XVII-3/11-09(11)/2010, दिनांक 31.03.2014 व शासनादेश संख्या-701/XVII-5/2015-09(11)/2010, दिनांक 09.07.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0301-सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत रू0 13.33 लाख (रू0 तेरह लाख तेत्तीस हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0सं0-S170415036, दिनांक 21 अप्रैल, 2017 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4732 में कर दिया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।


भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 434 (1)/XVII-5/2017-09(11)/2010 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी गढवाल।
6. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ब्लॉक रोड, चम्बा, टिहरी गढवाल।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Soldier Welfare (S046)

आवंटन पत्र संख्या - 434/XVII-5/2017-09(11)/2010

अनुदान संख्या - 015

अलोटमेंट आई डी - S170415036

आवंटन पत्र दिनांक - 21-Apr-2017

HOD Name - Director Soldier Welfare & Rahabillitaion (4732)

- 1: लेखा शीर्षक 4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम
200 - अन्य कार्यक्रम
03 - सैनिक कल्याण
01 - सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण

Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - ब्रह्म निर्माण कार्य	0	1333000	1333000
	0	1333000	1333000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1333000

y almi